



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

सं. 30 (आर ई-2003)/2002—2007

का.आ. 128(अ).— निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैराग्राफ 1.1, 2.1, 2.4 और 2.29 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना संख्या 3(आर ई-2003)2002-2007 दिनांक 31-3-2003 द्वारा यथा संशोधित निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2002-2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

2. आई टी सी (एचएस) की अनुसूची 2 में “उर्वरकों” शीर्ष के तहत मद कोड संख्या 3102, 3103, 3104 और 3105 के मदे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :-

कोड	मद विवरण	नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
3102	यूरिया	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है ।
3103	स्ट्रेट फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स नीचे दिए गए हैं :- i) सिंगल सुपर फास्फेट (16% पी2 ओ5) पावर्ड ii) सिंगल सुपर फास्फेट (14% पी2 ओ5) पावर्ड	प्रतिबंधित	निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत होगा :- (क) आई टी सी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 5 (क) पर यथा सूचीबद्ध एस एस पी के विनिर्माताओं को निम्नलिखित शर्तों पर विनिर्मित एस एस

	iii) सिंगल सुपर फास्फेट (16% पी2 ओ5) ग्रैनुलेटेड		<p>पी के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति होगी :</p> <p>i) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ स्वतः घोषणा प्रमाण पत्र सहित निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक विभाग को सूचना देनी होगी कि अभिप्रेत निर्यातों के लिए किसी रियायत/सब्सिडी का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को निर्यात के समय यथोपरोक्त (1) के अनुसार उपर्युक्त घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। (अधिसूचना संख्या 3 दिनांक 31-3-2003)</p>
3104	स्ट्रेट पोटेसिक उर्वरक नीचे दिए गए हैं i) पोटेसियम क्लोराइड (पोटाश का म्यूरिएट) (सभी ग्रेड)	प्रतिबंधित	<p>निम्नलिखित के अलावा लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत होगा :</p> <p>क) निम्नलिखित शर्तों के अधीन पिछले 6 महीनों के दौरान आयात की मात्रा में से एम ओ पी के सीधे आयातकों द्वारा मुक्त रूप से निर्यात अनुमत होगा:-</p> <p>(i) के निर्यात की जाने वाली मात्रा हेतु किसी रियायत का दावा नहीं किया जाएगा।</p> <p>(ii) यदि सरकार से इसका पहले से दावा कर चुके हैं तो वे रियायत को वापिस करेंगे।</p> <p>(iii) सांविधिक लेखा परीक्षक से उर्वरक विभाग और सीमा शुल्क विभाग को प्रमाण पत्र देंगे कि आयात की जाने वाली मात्रा को विगत छह माह में आयात किया जा चुका है तथा किसी रियायत/एब्सिडी का दावा नहीं किया गया, और</p> <p>(iv) केवल मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात आमदनी की गयी है।</p>

3105	(क) एन पी काम्प्लेक्स उर्वरक नीचे दिए गए हैं :- (i) डाईअमोनियम फास्फेट (डी ए पी) (18-46-0)	प्रतिबन्धित	निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत होगा :- (क) आई टी सी(एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 5 (ख) पर यथा सूचीबद्ध डी ए पी के विनिर्माताओं को स्व विनिर्मित डी ए पी के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी : (i) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र और स्व घोषणा प्रमाण पत्र सहित निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक विभाग को यह सूचना देना कि अभिप्रेत निर्यातों के लिए किसी रियायत/सब्सिडी का दावा नहीं किया गया है । (ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को निर्यात के समय यथोपरोक्त (1) के अनुसार उपर्युक्त घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । (अधिसूचना संख्या 3 दिनांक 31-3-2003
3105	(ख) अन्य एन पी कम्प्लैक्स उर्वरक नीचे दिए गए हैं : (i) एन पी (16-20-0) (ii) एन पी (20-20-0) (iii) एन पी (28-28-0) (iv) एन पी (23-23-0) और	प्रतिबन्धित	निम्नलिखित मामलों को छोड़कर लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति है:- (क) आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 5 पर यथा सूचीबद्ध एन. पी. और एन. पी. के. के विनिर्माताओं को अपने विनिर्मित एनपी/एनपीके के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी : (i) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र और स्व घोषणा प्रमाण पत्र सहित निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक विभाग को सूचना देना कि अभिप्रेत निर्यातों के लिए किसी रियायत/सब्सिडी का दावा नहीं किया गया है । (ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को निर्यात
3105	(ग) एन पी के काम्प्लैक्स उर्वरक नीचे दिए गए हैं : i) पोटेश सहित नाइट्रोफास्फेट (15-15-15) ii) एन पी के (10-26-26) iii) एन पी के (12-32-16)	प्रतिबन्धित	

	iv) एन पी के (14-35-14) v) एन पी के (14-28-14) vi) एन पी के (19-19-19) vii) एन पी के (17-17-17) viii) एन पी के (15-15-15)		के समय यथोपरोक्त (1) के अनुसार उपर्युक्त घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ।
3102 3103 3105	जिक अथवा बोरोन से फोर्टीफाइड सभी रसायनिक उर्वरक	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है ।
3105	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची 1 भाग क 1 (च) में विनिर्दिष्ट, को छोड़कर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक और उनके एन पी के वाले मिश्रण ।	प्रतिबंधित	लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है ।

3. एनपी/एनपीके फर्टिलाइजर्स के निर्माताओं की सूची, जोकि आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-5 (ग) का भाग है, संलग्न की गई है।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/91/180/1100/ए एम-02/पीसी-3]

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

अनुबन्ध-5

ग-एन पी/एन पी के निर्माताओं की सूची

1. मैसर्ज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, छठा तल, मैरीडियन, वैस्ट टॉवर, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली-110001
2. मैसर्ज जुराई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर, द्वितीय तल, एफ ब्लॉक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
3. मैसर्ज सर्वेन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्पिक हाऊस, 842, एशियन गेम्ज विलेज काम्पलेक्स, खेल गाँव, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049
4. मैसर्ज राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिजाइजर लि0, एच-9, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली
5. मैसर्ज ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सातवाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
6. मैसर्ज मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यू-12-ए, प्रथम तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
7. मैसर्ज इंडोगल्फ कारपोरेशन लिमिटेड, 312-ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110001
8. मैसर्ज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉआपरेटिव लि0, 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

9. मैसर्ज गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, ई-198, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065
10. मैसर्ज ई.आई.डी. पैरी इंडिया लिमिटेड, जीवन दीप बिल्डिंग, संख्या 10, संसद मार्ग पी.बी.सं. 172, नई दिल्ली-110001
11. मैसर्ज कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (सी एफ एल), जीवन दीप बिल्डिंग, प्रथम तल 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
12. मैसर्ज हिंद लीवर कैमिकल लि0, 10वाँ तल, टॉलस्टॉय हाउस, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001
13. मैसर्ज मैंगलोर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि0, 1002, भीकाजी कामा भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
14. मैसर्ज दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रोकेमिक्स कारपोरेशन लिमिटेड एस-1, प्रथम तल, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017
15. मैसर्ज पसदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, बयान भवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2004

No. 30 (RE-2003)/2002—2007

S.O. 128(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Paragraph 1.1, 2.1 2.4 and 2.29 of the Export and Import Policy, 2002-2007, the Central Government hereby makes the following amendments in the ITC(HS) Classification of Export and Import Items, 2002-2007 as amended vide Notification No.3 (RE-2003)/2002-2007 dated 31st March, 2003 and as amended from time to time:-

2. Against item code numbers 3102, 3103, 3104 and 3105 under Heading "Fertilizers" in Schedule 2 of ITC(HS), the following amendments shall be made:-

Code	Item Description	Policy	Nature of Restriction
3102	Urea	Restricted	Export permitted under licence.
3103	Straight Phosphatic Fertilizers mentioned given below :- i) Single Super Phosphate (16% P ₂ O ₅) Powdered (ii) Single Super Phosphate (14% P ₂ O ₅) Powdered iii) Single Super Phosphate (16% P ₂ O ₅) Granulated	Restricted	Export permitted Under Licence except in following case:- a) Manufacturers of SSP, as listed at Appendix 5 (A) to Schedule 2 of ITC(HS), shall be allowed to export freely their own manufactured SSP subject to the following conditions :-

2004 G.S./04-2

			<p>(i) Intimation to Department of Fertilizer about quantity of export along with a self-declaration and a certificate issued by statutory auditors that no concession/subsidy has been claimed for intended export.</p> <p>(ii) Production of above declaration / certificate as at (i) above to Customs at the time of export.</p> <p>(Notification No. 3 dated 31.3.2003)</p>
3104	<p>Straight Potassic Fertilizers given below:</p> <p>i) Potassium Chloride (Muriate of Potash) (All grades)</p>	Restricted	<p>Export permitted under licence , except in following case:-</p> <p>(a)Exports permitted freely by direct importers of MOP out of quantity of import made during last six months subject to the following conditions :-</p> <p>(i) They will not claim any concession for the quantity intended to be exported ; or</p> <p>(ii) they will be return the concession if already claimed from the Government; and</p> <p>(iii) furnish certificate from the statutory auditors to the Department of Fertilisers and Customs that the quantity intended to be exported has been imported in the last six months and no concession / subsidy has been claimed; and</p> <p>(iv) export realisation in free foreign exchange only.</p>
3105	<p>(A) N.P. Complex Fertilizers given below :</p> <p>(i) Diammonium Phosphate (DAP) (18-46-00) ♦</p>	Restricted	<p>Export permitted under licence except in following case:-.</p> <p>a) Manufacturers of DAP , as listed in Appendix 5 (B) to Schedule 2 of ITC(HS) , shall be allowed to export freely their own</p>

			<p>manufactured DAP subject to the following conditions:-</p> <p>i) Intimation to Department of Fertilizer about quantity of export along with a self-declaration and a certificate issued by statutory auditors that no concession/subsidy has been claimed for intended export.</p> <p>ii) Production of above declarations / certificates as at (i) above to Customs at the time of export.</p> <p>(Notification No. 3 dated 31.3.2003)</p>
3105	(B) Other N.P. Complex Fertilizers as given below : (i) NP (16-20-0) (ii) NP (20-20-0) (iii) NP (28-28-0) (iv) NP (23-23-0) and	Restricted	Export permitted under licence, except in following cases:- a) Manufacturers of NP and NPK, as listed at Appendix 5 (C) of Schedule 2 of ITC(HS), shall be allowed to export freely their own manufactured NP / NPK subject to the following conditions:-
3105	(C) N.P.K. Complex Fertilisers given below :- i) Nitrophosphate with Potash (15-15-15) ii) N.P.K (10-26-26) iii) N.P.K. (12-32-16) iv) N.P.K. (14-35-14) v) N.P.K. (14-28-14) vi) N.P.K. (19-19-19) vii) N.P.K. (17-17-17) viii) N.P.K. (15-15-15)	Restricted	<p>i) Intimation to Department of Fertilizer about quantity of export along with a self-declaration and a certificate issued by statutory auditors that no concession/ subsidy has been claimed for intended export.</p> <p>ii) Production of above declaration / certificate as at (i) above to Customs at the time of export.</p>
3102 3103 3105	All chemical fertilisers fortified with zinc or boron	Restricted	Export permitted under licence.
3105	Micronutrient fertilisers and mixtures thereof containing NPK, excluding those specified in Schedule 1 Part A 1 (f) of Fertilisers Control Order, 1985	Restricted	Export permitted under licence.

3. The list of manufacturers of NP / NPK Fertilisers which will form Appendix 5 (C) of Schedule 2 of ITC(HS) is annexed.

4. This issues in Public interest.

[F. No. 01/91/180/1100/AM-02/PC. III]

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Add. Secy.

APPENDIX-5

C. List of NP / NPK Manufacturers

- 1 M/s Gujarat State Fertilisers & Chemicals Ltd.
6th Floor, Meridien, West Tower, Windsor Place, New Delhi-110001.
- 2 M/s Zurai Industries Ltd.,
International Trade Tower, 2nd Floor, F Block, Nehru Place, New Delhi-110019.
- 3 M/s Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd.,
SPIC House, 842, Asian Games Village Complex, Khel Gaon, August Kranti Marg,
New Delhi-110049.
- 4 M/s Rashtriya Chemical and Fertiliser Ltd.,
H-9 Green Park Extn., New Delhi.
- 5 M/s Oswal Chemicals & Fertilisers Ltd.,
7th Floor, Antrikash Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.
- 6 M/s Madras Fertilisers Ltd.,
U-12-A, First Floor, Green Park Extension, New Delhi-110016.
- 7 M/s Indogulf Corporation Ltd.,
312-A World Trade Centre, Barakhamba lane, New Delhi-110001.
- 8 M/s Indian Farmers Fertilisers Coop. Ltd.,
34, Nehru Place, New Delhi-110019.
- 9 M/s Godavari Fertilisers & Chemical Ltd.,
E-198, East of Kailash, New Delhi-110065.
- 10 M/s E.I. D Parry India Ltd.,
Jeevan Deep Building, No.10, Sansad Marg, P.B. No.172, New Delhi-110001.
- 11 M/s Coromondal Fertilizer Ltd. (CFL)
Jeevan Deep Building, 1st Floor, 10, Parliament Street, New Delhi-110001.
- 12 M/s Hind Lever Chemical limited,
10th Floor, Tolstoy House, Tolstoy Marg, N. Delhi-110001.
- 13 M/s Mangalore Chemicals and Fertilisers Ltd.,
1002, Bhikaji Cama Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
- 14 M/s Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited,
S-I, First Floor, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
- 15 M/s Paradeep Phosphates Ltd.,
Bayan Bhawan, Pandit Jawaharlal Nehru Marg, Bhubaneshwar-751001.